

Morfologia

Sintaxi

Etimologia

Traducció

- Completa les tres graelles d'aquesta pàgina i la següent
 - amb la persona i numero indicats per a cada verb del present, imperfet, futur i aorist d'indicatiu
 - amb l'infinitiu present, futur i aorist de cada verb
 - amb el participi present, futur i aorist en el cas, número i gènere indicat per a cada verb

(a)

		INDicatiu			
		present	imperfet	futur	aorist
ἀγγέλλω < ἀγγέλ-γ-ω	1a sg	ἀγγέλλω			
στέλλω < στέλ-γ-ω	2a sg		ἔστελλες		
σπείρω < σπέρ-γ-ω	3a sg			σπερεῖ	
κτείνω < κτέν-γ-ω	1a pl				ἐκτείναμεν
φθείρω < φθέρ-γ-ω	2a pl				

(b)	INFinitiu		
	present	futur	aorist
ἀγγέλλω < ἀγγέλ-γ-ω			ἀγγεῖλαι
στέλλω < στέλ-γ-ω			
σπείρω < σπέρ-γ-ω		σπερεῖν	
κτείνω < κτέν-γ-ω			
φθείρω < φθέρ-γ-ω	φθεῖρην		

(c)	PARTicipi		
	present	futur	aorist
ἀγγέλλω < ἀγγέλ-γ-ω	en nom sg m ἀγγέλλον		
στέλλω < στέλ-γ-ω	en acc pl m	στελοῦντας	
σπείρω < σπέρ-γ-ω	en gen sg m		σπείραντος
κτείνω < κτέν-γ-ω	en nom pl m		
φθείρω < φθέρ-γ-ω	en ac pl n		

- Fes l'anàlisi morfològica de les següents formes verbals (totes de verbs líquids), d'acord amb els exemples:

forma verbal	persona	número	temps	mode	veu	verb	traducció
--------------	---------	--------	-------	------	-----	------	-----------

ἠγγέλλομεν	1a	pl	imperfet	INDicatiu	ACTiva	ἠγγέλλω	<i>anunciàvem</i>
------------	----	----	----------	-----------	--------	---------	-------------------

ἠγγείλαμεν	1a	pl	aorist	INDicatiu	ACTiva	ἠγγέλλω	<i>vam anunciar</i>
------------	----	----	--------	-----------	--------	---------	---------------------

ἔτελλες				INDicatiu	ACTiva		
---------	--	--	--	-----------	--------	--	--

ἔτειλας				INDicatiu	ACTiva		
---------	--	--	--	-----------	--------	--	--

αἶρετε				INDicatiu	ACTiva		
--------	--	--	--	-----------	--------	--	--

ἤρατε				INDicatiu	ACTiva		
-------	--	--	--	-----------	--------	--	--

ἐσήμαινε				INDicatiu	ACTiva		
----------	--	--	--	-----------	--------	--	--

ἐσήμηνε				INDicatiu	ACTiva		
---------	--	--	--	-----------	--------	--	--

τέμνω				INDicatiu	ACTiva		
-------	--	--	--	-----------	--------	--	--

τεμῶ				INDicatiu	ACTiva		
------	--	--	--	-----------	--------	--	--

- Relaciona els sintagmes subrallats de cada frase amb els casos i funcions corresponents, posant el número a dins del paréntesi. No cal que escriguis les traduccions.

- (1) nominatiu / Subjecte
- (2) nominatiu / ATRibut
- (3) nominatiu / CP (complement predicatiu) referit al subjecte
- (4) vocatiu [dos cops]
- (5) acusatiu / CD (complement directe)
- (6) doble acusatiu (CD): acusatiu de persona i acusatiu de cosa
- (7) acusatiu (CC) d'extensió en el temps
- (8) acusatiu (CC) d'extensió en l'espai
- (9) acusatiu de relació que concreta a què es refereix la qualitatd'un adjectiu

- | | |
|--|--|
| () Αί ίέρειαί <u>ἄσμεναι</u> ἐχόρευον. | () Ὁ γεωργός ἤρε <u>τὸν λίθον</u> . |
| () Ἄρα φεύξεις, <u>στρατιώτα</u> : | () <u>Πάντες οἱ ἄνθρωποι</u> θνητοί εἰσιν. |
| () Ἐκεῖνος ὁ στρατηγός μάλα <u>ἀνδρεῖος</u> ἦν. | () Τήμερον <u>τρεις ὥρας</u> βαδίσομεν. |
| () Ἡ νῆσος <u>τρία στάδια</u> τῆς ἠπείρου ἀπέιχε. | () Ὡ <u>ἄνδρες Σπαρτιάται</u> , ἐμοῦ ἀκούετε. |
| () Ὁ διδάσκαλος <u>πολλά τοὺς μαθητὰς</u> ἐρώτησεν. | () Οὗτος ὁ ἀγαματοποιός μάλα δεξιός ἐστι <u>τὴν</u>
ἐαυτοῦ <u>τέχνην</u> . |

- D'acord amb l'exemple, completa la taula amb els dos termes grecs l'arrel dels quals es troba en les paraules compostes en català de la primera columna.

angelologia	ἄγγελος	λόγος
espermòfor		
fitòftora		
sauròcton		
teofania		
tomografia		

- Fes l'anàlisi morfosintàctica i la traducció de les frases següents.

α) Ὁ Ξέρξης ἀναρίθμητον στρατιὰν ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους ἤγειρεν.

β) Ὁ Ἡρακλῆς τῶν κακούργων ἐκάθηρε γῆν καὶ θάλατταν.

γ) Οἱ Ἀχαιοὶ δέκα χρόνους πρὸ τῆς Τροίας ἔμειναν.

δ) Οἱ Λακεδαιμόνιοι πολλοὺς Πέρσας κατὰ τὸν πόλεμον ἀπέκτειναν.

Ἀχαιοί, -ῶν, οἱ: els aqueus

Ἡρακλῆς, -έους, ὁ: Hèraclès

Λακεδαιμόνιοι, -ων, οἱ: els lacedemonis

Πέρσαι, -ῶν, οἱ: els perses

Ξέρξης, ου, ὁ: Xerxes

ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους (prep + ac): contra els atenesos

κατὰ τὸν πόλεμον (prep + ac): durant la guerra

πρὸ τῆς Τροίας (prep + gen): davant Troia